



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 32 पटना, बुधवार, 4 भाद्र, 1931 (श0)
26 अगस्त, 2009 (ई0)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की अनुमति मिल चुकी है।
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	भाग-8—भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	भाग-9—विज्ञापन
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।
भाग-4—बिहार अधिनियम	पूरक
	पूरक-क

9-10

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं

सहकारिता विभाग

अधिसूचनाएं

31 जुलाई 2009

सं० सह. 2/राज (स्था.) 20/09-2547—श्री ललन राय, (बि.प्र.से.) उप-सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को अपने पुत्र के ईलाज कराने हेतु बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 231 के तहत दिनांक 7 जुलाई 2009 से 20 जुलाई 2009 तक कुल 14 दिनों के लिए उपाजित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति दी जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
जय नारायण सिंह, संयुक्त सचिव।

4 अगस्त 2009

सं० 01/रा.स्था. (3)पद.-015/08-सह.-2623—श्री सुरेश दास, जिला सहकारिता पदाधिकारी, सीवान को अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रभार ग्रहण की तिथि से महाप्रबंधक, समेकित सहकारी विकास परियोजना, सीवान का प्रभार दिया जाता है।

सं० 01/रा.स्था. (3)पद.-015/08-सह.-2624—श्री संदीप कुमार ठाकुर, प्रबंधक निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक, सीतामढ़ी को अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रभार ग्रहण की तिथि से महाप्रबंधक, समेकित सहकारी विकास परियोजना, सीतामढ़ी का प्रभार दिया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ललन राय, उप-सचिव।

12 अगस्त 2009

सं० 01/रा.स्था. वि.सह.से. (स्था.)-16/2009-2829—श्री संतोष कुमार झा, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जहानाबाद को स्थानांतरित करते हुए प्रभार ग्रहण की तिथि से जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधुबनी के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

श्री झा, जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधुबनी अपने कार्य के अतिरिक्त प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रबंध निदेशक, रहिका सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि., मधुबनी, सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, मधुबनी एवं महाप्रबंधक, समेकित सहकारी विकास परियोजना, मधुबनी के प्रभार में रहेंगे।

सं० 01/रा.स्था. वि.सह.से. (स्था.)-16/2009-2830—श्री भरत कुमार, जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधुबनी को स्थानांतरित करते हुए प्रभार ग्रहण की तिथि से सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ (हस्तकरघा) बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 01/रा.स्था. वि.सह.से. (स्था.)-16/2009-2831—श्री रामनाथ प्रसाद, जिला सहकारिता पदाधिकारी, किशनगंज को स्थानांतरित करते हुए प्रभार ग्रहण की तिथि से जिला सहकारिता पदाधिकारी, जहानाबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

श्री प्रसाद को विभागीय अधिसूचना संख्या 2599, दिनांक 3 अगस्त 2009 के आलोक में अपने कार्य के अतिरिक्त प्रभार ग्रहण की तिथि से सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, जहानाबाद के प्रभार में रहेंगे।

यह आदेश तुरंत लागू होगा। निदेश दिया जाता है कि वे अविलम्ब प्रभार का आदान-प्रदान कर प्रभार प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ललन राय, उप-सचिव।

12 अगस्त 2009

सं० 01/रा.स्था.वि.सह.से.(स्थाना.)016/06-2844—श्री संजय कुमार मंडल, जिला सहकारिता पदाधिकारी—सह- सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, अररिया को अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रभार ग्रहण की तिथि से जिला सहकारिता पदाधिकारी, किशनगंज एवं सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, किशनगंज का प्रभार दिया जाता है।

यह आदेश तुरत लागू होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ललन राय, उप-सचिव।

निगरानी विभाग

अधिसूचनाएं

12 अगस्त 2009

सं० 1/स्था०-35/87अंश-1-4033—पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना संख्या 4896, दिनांक 18 मई 2009 के आलोक में श्री भुवनेश्वर यादव, कार्यपालक अभियंता को निगरानी विभाग के अधीन तकनीकी परीक्षक कोषांग, पटना में कार्यपालक अभियंता के रिक्त पद के विरुद्ध उनके योगदान की तिथि 22 मई 2009 से अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
आर० के० जैन, संयुक्त सचिव।

12 अगस्त 2009

सं० 1/स्था०-35/87 अंश-1-4034—जल संसाधन विभाग की अधिसूचना संख्या 2007, दिनांक 17 जून 2009 के आलोक में श्री सरोज कुमार सिन्हा, कार्यपालक अभियंता को निगरानी विभाग के अधीन तकनीकी परीक्षक कोषांग, पटना में कार्यपालक अभियंता के रिक्त पद के विरुद्ध उनके योगदान की तिथि 18 जून 2009 से अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से
आर० के० जैन, संयुक्त सचिव।

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचनाएं

11 अगस्त 2009

सं० 6 वि०पत्रा०-24-46/2005-3167—विभागीय अधिसूचना संख्या 3691, दिनांक 5 अगस्त 2008 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-19 के प्रावधानों के अधीन वाणिज्य-कर विभाग के निम्नलिखित कार्यालयों से संबंधित लोक सूचना पदाधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील के लिए दिनांक 1 अगस्त 2009 के प्रभाव से श्री मोहन झा, वाणिज्य-कर अपर आयुक्त, बिहार, पटना को अपीलीय पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है :-

कार्यालय का नाम

1. वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना (मुख्यालय)
2. वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अपील), पटना पूर्वी एवं पश्चिमी प्रमंडल
3. वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), केन्द्रीय प्रमंडल, पटना
4. वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अपील), केन्द्रीय प्रमंडल, पटना
5. वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा
6. वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अपील), दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा
7. वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर
8. वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अपील), भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर
9. वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), पूर्णियां प्रमंडल, पूर्णियां
10. वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अपील), पूर्णियां प्रमंडल, पूर्णियां
11. वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर
12. वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), सारण प्रमंडल, छपरा
13. वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अपील), तिरहुत एवं सारण प्रमंडल, मुजफ्फरपुर

14. वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), मगध प्रमंडल, गया

15. वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अपील), मगध प्रमंडल, गया

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
लालबाबू गुप्ता, अवर सचिव।

शुद्धि पत्र

16 जून 2009

सं० 6/वि०पत्रा०-24-46/2005-2107-अनु०-विभागीय अधिसूचना संख्या 4793, दिनांक 21 अक्टूबर 2008 के द्वारा विभिन्न कार्यालयों के लिए पदनाम से राज्य लोक सूचना पदाधिकारी नियुक्त किया गया है, जिसमें सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की "धारा-19" के स्थान पर "धारा-5(1)" पढ़ा जाय।

2. उक्त अधिसूचना को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

3. उक्त अधिसूचना की अन्य शर्तें पूर्ववत् रहेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
लाल बाबू गुप्ता, अवर सचिव।

बिहार विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचनाएं

16 जुलाई 2009

सं० 2स्था०-92/09-1767/वि०सं०-श्री लक्ष्मीकान्त झा, अवर सचिव, बिहार विधान-सभा को महालेखाकार कार्यालय के प्रतिवेदन संख्या जी०ई०-12-बी०एल०ए०-XVII-6-763, दिनांक 3 जून 2009 तथा बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 228 एवं 248 "ए" के अनुसरण में दिनांक 12 नवम्बर 2008 से 28 नवम्बर 2008 तक उपार्जित अवकाश की स्वीकृति के साथ बिहार सेवा संहिता के नियम 159 के तहत 29 नवम्बर 2008 एवं 30 नवम्बर 2008 के सार्वजनिक अवकाश के उपभोग की अनुमति प्रदान की जाती है।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,
राधेश्याम झा, अवर सचिव।

1 जुलाई 2009

सं० 2स्था०-109/09-1679/वि०सं०-सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या 630, दिनांक 16 मई 2005 द्वारा प्रवृत्त वित्त विभाग के संकल्प संख्या 3/एम० 2-5-1/99-खण्ड 1829 वि० (2), दिनांक 7 अप्रैल 2005 तथा महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना के ज्ञाप संख्या जी०ई०-12-बी०एल०ए०-XVII-25-816, दिनांक 10 जून 2009 के आलोक में श्री बैजू प्रसाद सिंह, सेवानिवृत्त उप-सचिव, बिहार विधान-सभा, पटना को उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 31 मार्च 2009 तक उनके कोष में संग्रहित 300 (तीन सौ) दिनों का अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले अनुमान्य वेतन तथा उक्त वेतन पर प्रचलित दर पर अनुमान्य महंगाई भत्ता के समतुल्य नगद राशि के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,
राधेश्याम झा, अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 23-571+50-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>

भाग-2

बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

बिहार विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचनाएं

11 अगस्त 2009

सं० प०उ०सं०सं०-10/09-878/ वि०सं०—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या 403, दिनांक 27 मार्च 2009 के क्रम में माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा ने श्री जय कुमार सिंह, सं०वि०सं०, क्षेत्र संख्या 208 विक्रमगंज, को कृषि उद्योग विकास समिति के बदले वर्ष 2009-10 के लिए गठित पर्यटन उद्योग संबंधी समिति की शेष अवधि के लिए सदस्य मनोनीत किया है।

अधिसूचना निर्गत की तिथि से माननीय सदस्य श्री जय कुमार सिंह, सं०वि०सं०, कृषि उद्योग विकास समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,
सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा, सचिव।

14 जुलाई 2009

सं०प०उ०सं०सं०-10/2009-719/वि०सं०—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या 403 दिनांक 27 मार्च 2009 के क्रम में माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा ने श्री नीरज कुमार सिंह “बब्लू”, सं०वि०सं०, क्षेत्र संख्या 110, राघोपुर को गैर सरकारी विधेयक एवं संकल्प-सह-पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति के बदले एवं श्री अभय सिंह, सं०वि०सं०, क्षेत्र संख्या 170, जमुई को जिला परिषद् एवं पंचायती राज समिति के बदले वर्ष 2009-2010 के लिए गठित पर्यटन उद्योग संबंधी समिति की शेष अवधि के लिए सदस्य मनोनीत किया है।

अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से माननीय सदस्य श्री नीरज कुमार सिंह “बब्लू”, सं०वि०सं०, गैर सरकारी विधेयक एवं संकल्प-सह-पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति के तथा श्री अभय सिंह, सं०वि०सं०, जिला परिषद् एवं पंचायती राज समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,
सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा, सचिव।

23 जुलाई 2009

सं०1स्था०-114/09-1827/वि०सं०—वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3ए-7-महा० 01/2005-1500 वि० (2), दिनांक 24 मार्च 2005 तथा सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या 499, दिनांक 12 अप्रैल 2005 के अनुसरण में श्री सीताराम झा, अवर सचिव, बिहार विधान-सभा सचिवालय को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के फलस्वरूप दिनांक 31 जुलाई 2009 के अपराह्न से सेवानिवृत्त किया जाता है।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,
राधेश्याम झा, अवर सचिव।

23 जुलाई 2009

सं० 1स्था०-113/09-1824/वि०स०—वित्त विभाग के संकल्प संख्या 3ए-7-महा० 01/2005-1500 वि० (2), दिनांक 24 मार्च 2005 तथा सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या 499, दिनांक 12 अप्रैल 2005 के अनुसरण में श्री कैलाश प्रसाद सिन्हा, अवर सचिव, बिहार विधान-सभा सचिवालय को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के फलस्वरूप दिनांक 31 जुलाई 2009 के अपराह्न से सेवानिवृत्त किया जाता है।

अध्यक्ष, विधान-सभा के आदेश से,
राधेश्याम झा, अवर सचिव।

मुख्य अभियंता उत्तर का कार्यालय
नलकूप प्रभाग, लघु जल संसाधन-विभाग, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय-आदेश

6 अगस्त 2009

सं० स्था०-3, बी-6/ 2008-1139—सरकार के अवर सचिव, लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 1661, दिनांक 2 अप्रैल 2007 में निहित सरकार के आदेश के अनुपालन में स्व० अहमद हुसैन भूतपूर्व खलासी प्रमण्डल, छपरा के आश्रित पुत्र मो० अनुष अहमद को नलकूप प्रमण्डल, पूर्णियाँ के अन्तर्गत नि०व०लि० के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से बेतनमान रू० 3050-75-3950-80-4590 तथा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधार पर औपबोधक रूप से नियुक्त किया जाता है, जिसे बिना कारण बताये रद्द किया जा सकता है।

2. मो० अनुष अहमद पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर योगदान देंगे। योगदान के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक/जिला चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्यता प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, विवाह में तिलक दहेज का लेन-देन नहीं करना, न्यायालय में सजा प्राप्ति नहीं होने, न्यायालय में फौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं रहने तथा स्व० अहमद हुसैन के परिवार के आश्रित सदस्यों का भरण-पोषण करने संबंधी अद्यतन शपथ-पत्र आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियंता नलकूप प्रमण्डल, पूर्णियाँ के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच कार्यपालक अभियंता करेंगे तथा इसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा।

3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र/जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुशंसित पत्र का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा कर ली जायेगी।

4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या 13293, दिनांक 5 अक्टूबर 1991 की कड़िका-1 (ख) के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरुद्ध विधिवत की गई थी, का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा कर ली जायेगी।

5. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या 13293, दिनांक 5 अक्टूबर 1991 की कड़िका-7 के अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरुद्ध यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण-पोषण में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। इस संबंध में मो० अनुष अहमद को योगदान के समय वर्णित अनुदेश के अनुरूप एक घोषणा-पत्र भी कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे कार्यपालक अभियंता मो० अनुष अहमद की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेंगे।

6. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तो किसी भी समय कारण पृच्छा नोटिश देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

7. तिलक दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोषणा-पत्र भी नियुक्ति किये जा रहे व्यक्ति को कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

8. यदि यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरुद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा।

9. इन्हे छः माह के अन्दर कम्प्युटर टाईपिंग का ज्ञान आवश्यक है अन्यथा इनकी नियुक्ति समाप्ति हेतु कारवाई की जायेगी।

10. योगदान करने हेतु मो० अनुष अहमद को यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

11. वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1964, दिनांक 31 अगस्त 2005 में निहित अंशदायी पेंशन योजना संबंधी प्रावधान लागू होंगे।

जयमंगल पासवान,
मुख्य अभियंता (उत्तर)।

4 अगस्त 2009

सं० स्था०-3, बी-47/08-1131—सरकार के अवर सचिव, लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-1661, दिनांक 2 अप्रैल 2007 में निहित सरकार के आदेश के अनुपालन में स्व० कैलाश सहनी, भूतपूर्व नलकूप चालक, नलकूप प्रमण्डल, मोतीहारी के आश्रित पुत्र श्री संजय कुमार सहनी को नलकूप प्रमण्डल, बेतिया के अन्तर्गत पदचर के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से वेतनमान रु० 2550-55-2660-60-3200 तथा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधार पर औपबोधिक रूप से नियुक्त किया जाता है, जिसे बिना कारण बताये रद्द किया जा सकता है।

2. श्री संजय कुमार सहनी पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर योगदान देंगे। योगदान के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक/जिला चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्यता प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, विवाह में तिलक दहेज का लेन-देन नहीं करना, न्यायालय में सजा प्राप्ति नहीं होने, न्यायालय में फौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं रहने तथा स्व० कैलाश सहनी के परिवार के आश्रित सदस्यों का भरण-पोषण करने संबंधी अद्यतन शपथ-पत्र आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियंता नलकूप प्रमण्डल, बेतिया के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच कार्यपालक अभियंता करेंगे तथा इसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा।

3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र/जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुशंसित-पत्र का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा कर ली जायेगी।

4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या 13293, दिनांक 5 अक्टूबर 1991 की कडिका-1 (ख) के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरुद्ध विधिवत की गई थी, का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा कर ली जायेगी।

5. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या-13293, दिनांक 5 अक्टूबर 1991 की कडिका-7 के अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरुद्ध यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण-पोषण में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। इस संबंध में श्री संजय कुमार सहनी को योगदान के समय वर्णित अनुदेश के अनुरूप एक घोषणा-पत्र भी कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे कार्यपालक अभियंता श्री संजय कुमार सहनी की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेंगे।

6. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तो किसी भी समय कारण पृच्छा नोटिश देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

7. तिलक दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोषणा-पत्र भी नियुक्ति किये जा रहे व्यक्ति को कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

8. यदि यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरुद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा।

9. योगदान करने हेतु श्री संजय कुमार सहनी को यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

10. वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1964, दिनांक 31 अगस्त 2005 में निहित अंशदायी पेंशन योजना संबंधी प्रावधान लागू होंगे।

जयमंगल पासवान,
मुख्य अभियंता (उत्तर)।

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

10 अगस्त 2009

सं० सि०मो० 168/09-504—वर्ष 2009 में राज्य में अल्प वर्षापात के कारण खरीफ सिंचाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है तथा राज्य में सुखाड़ के कारण आपदा की स्थिति बन गई है ।

आपदा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना सं०प्रा०आ० 26/2009/2221 आ०प्र० पटना, दिनांक 10 अगस्त 2009 द्वारा राज्य के 26 प्रभावित जिलों में सुखाड़ (प्राकृतिक आपदा) घोषित किया गया एवं किसानों से खरीफ पटवन शुल्क की वसूली वर्ष 2009-10 के लिए स्थगित की गई ।

उपरोक्त निर्णय के आलोक में जल संसाधन विभाग, बिहार द्वारा निम्नलिखित 26 (छब्बीस) सुखाड़ग्रस्त घोषित जिलों में नहरों से वर्ष 2009-10 के लिए खरीफ पटवन शुल्क की वसूली स्थगित की जाती है ।

बिहार में सुखाड़ग्रस्त अधिसूचित जिलों की प्रमंडलवार सूची

<u>मगध प्रमंडल</u>	<u>पटना प्रमंडल</u>	<u>मुंगेर प्रमंडल</u>	<u>भागलपुर</u>
1. गया 2. जहानाबाद 3. औरंगाबाद 4. अरवल 5. नवादा	1. पटना 2. नालन्दा 3. भोजपुर 4. बक्सर 5. रोहतास 6. कैमूर	1. मुंगेर 2. शेखपुरा 3. लखीसराय 4. जमुई 5. बेगुसराय	1. भागलपुर 2. बाँका
<u>सारण प्रमंडल</u>	<u>तिरहुत प्रमंडल</u>	<u>कोसी प्रमंडल</u>	<u>पूर्णियाँ प्रमंडल</u>
1. सारण 2. सीवान	1. मुजफ्फरपुर 2. सीतामढ़ी 3. वैशाली	1. मधेपुरा	1. किशनगंज 2. कटिहार

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राम चन्द्र प्रसाद सिन्हा, संयुक्त सचिव (अभि०)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 23-571+100-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

भाग-9(ख)

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।

अधीक्षक का कार्यालय,
पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना

निविदा सूचना

सं० 7696—वर्ष 2009-10 में पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना के अर्न्तवासीय रोगियों को पथ्य आपूर्ति (तिमाही) हेतु खाद्य सामग्री/फल एवं सब्जियाँ इत्यादि सामानों के क्रय हेतु निविदा प्रकाशन की तिथि से 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर निबंधित डाक अथवा स्पीड पोस्ट से बिहार वाणिज्य-कर में निबंधित निर्माता/आपूर्तिकर्ता/प्राधिकृत विक्रेता से आमंत्रित किया जाता है। इस निविदा से संबंधित सभी जानकारियाँ बिहार सरकार के वेबसाइट सं०-www.prdbihar.org एवं पी०एम०सी०एच० के वेबसाइट सं०-www.pmch.in पर निविदा प्रकाशन के तिथि के पश्चात् प्राप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त निविदा प्रकाशन के पश्चात् किसी भी कार्य दिवस को क्रय शाखा से निविदा शर्त एवं सूची प्राप्त किया जा सकता है।

दिनांक 11 अगस्त 2009

अधीक्षक,
पी०एम०सी०एच०, पटना।

निविदा शर्त एवं सामग्रियों की सूची :—

1. निविदा दो प्रकार की होगी-तकनीकी(दो प्रति में) एवं वित्तीय (दो प्रति में)। दोनों ही निविदा अलग-अलग लिफाफे में टंकित एवं मुहरबन्द होगा। एक लिफाफे में दोनों निविदा देने पर वह स्वतः रद्द समझा जायेगा। तकनीकी एवं वित्तीय लिफाफे पर निविदादाता स्पष्ट रूप से निविदा का विषय अंकित करेंगे। निविदादाता को निविदा में तकनीकी एवं वित्तीय अलग-अलग लिफाफे में मूल प्रति एवं द्वितीय प्रति स्पष्ट रूप से लिफाफे पर अंकित करना अनिवार्य होगा।
2. निविदादाता का नाम, पूरा पता एवं दूरभाष संख्या निविदा में अंकित करना होगा।
3. निविदादाता को बिहार वाणिज्यकर में निबंधित एवं वर्ष 2009-10 में निविदा देने हेतु अद्यतन प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा एवं पथ्य से संबंधित समानों का बिहार वाणिज्य-कर में निबंधित होना अनिवार्य है, जिसे तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
4. सभी निविदादाता को फुड लाइसेंस से संबंधित प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
5. अग्रधन के रूप में रु० 20,000 (बीस हजार) का बैंक ड्राफ्ट/एन०एस०सी० जो अधीक्षक, पी०एम०सी०एच०, पटना के पदनाम से प्रतिभूत होगा तकनीकी निविदा में संलग्न करना होगा।
6. निविदा टंकित एवं मुहरबंद होगा। हस्तलिखित निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
7. भारत अथवा बिहार सरकार के उपक्रम इस निविदा में भाग लेना चाहेंगे।
8. निविदादाता किसी क्रिमिनल केस अथवा किसी सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थान के द्वारा दंडित नहीं किये गये हैं, इस आशय का शपथ-पत्र कार्यपालक दण्डाधिकारी के माहध्यम से प्राप्त कर निविदा में संलग्न करना होगा।
9. आपूर्तिकर्ता/प्राधिकृत विक्रेता को निर्माता द्वारा निर्गत प्राधिकृत-पत्र संलग्न करना होगा एवं निर्माता का फुड लाइसेंस से संबंधित प्रमाण-पत्र भी संलग्न करना होगा।
उपरोक्त सभी कागजात तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना है।
10. वित्तीय निविदा में सामग्री का नाम एवं दर अंकित करना है। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं रहेगा।
11. किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्र पटना होगा।
12. अद्योहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये किसी भी निविदा को आवश्यकतानुसार आंशिक या पूर्णतः अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित होगा।
13. दर अनुमोदित के पश्चात् सामानों की आपूर्ति पथ्य शाखा, पी०एम०सी०एच०, पटना में करने हेतु अलग से कोई शुल्क देय नहीं होगा और उन्हें रसोई घर में सुबह 7 बजे सामान आपूर्ति करना होगा।

14. निविदा में अनुमोदित आकार एवं गुणवत्ता युक्त सामग्री नहीं पाये जाने पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा आर्थिक दण्ड किया जायेगा।

खाद्य सामग्री (तिमाही)
खाद्य सामग्री, फल एवं सब्जियाँ

1. आलू	-	प्रति किलो की दर से
2. प्याज	-	"
3. टमाटर	-	"
4. परवल	-	"
5. कद्दू	-	"
6. नेनुआ	-	"
7. फूलगोभी	-	"
8. बन्धागोभी	-	"
9. पालक साग	-	"
10. लाल साग	-	"
11. सलजम	-	"
12. भिन्डी	-	"
13. बैंगन	-	"
14. नारंगी	-	18 से०मी० से 21 से०मी० गोलाई-11
15. मोसम्मी	-	18 से०मी० से 21 से०मी० गोलाई-11
16. सेब कश्मीरी एवं हिमाचल	-	18 से०मी० से 21 से०मी० गोलाई-11
17. आम (सिपिया/मालदह)	-	18 से०मी० से 21 से०मी० गोलाई-11
18. हरा मिर्च	-	प्रति किलो की दर से
19. आदी	-	"
20. बोरो	-	"
21. सीम	-	"
22. करैला	-	"
23. कच्चा केला	-	प्रति दर्जन की दर से
24. कागजी नींबू	-	"
25. केला चीनिया	-	8 से 10 से०मी० लम्बाई-प्रति दर्जन
26. हरा छाल केला	-	10 से 12 से०मी० लम्बाई-प्रति दर्जन

(ह०) अस्पष्ट,
अधीक्षक।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 23-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>